

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 30.10.2020

युवक की हत्या कर शव नदी में फेंकने वाले 02 अभियुक्त घटना के तीसरे दिन ही गिरफ्तार

दिनांक 26.10.2020 को थानाक्षेत्र उदयपुर के ग्राम पथरिया में सई नदी के किनारे हुआ था शव बरामद

दिनांक 26.10.2020 को सुबह के समय थानाक्षेत्र उदयपुर के ग्राम पथरिया में सई नदी के किनारे एक 28 वर्षीय अज्ञात युवक का शव पाया गया था। शव की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा था कि इसी क्रम में एक व्यक्ति अजय सिंह पुत्र अलखदेव सिंह निवासी वजीर वार्ड नं0-03 पोस्ट करबधिया थाना सासराम नगर जनपद रोहतास, बिहार के द्वारा शव की शिनाख्त अपने पुत्र नितीश कुमार के रूप में करते हुए दो व्यक्तियों पर अपने पुत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए नामजद तहरीर दी गई। इस संबंध में थाना उदयपुर पर मु0अ0सं0 214/20 धारा 302, 201 भादंवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना उदयपुर के प्रभारी निरीक्षक विपिन कुमार सिंह के द्वारा उक्त मुकदमें से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु किये जा रहे निरन्तर प्रयास के क्रम में कल दिनांक 29.10.2020 को मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र उदयपुर के रामपुर कसिया बैरियर के पास से दोनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया व उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद कार , 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद रस्सी बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि नितीश कुमार (मृतक) का हमारे घर की एक लड़की से अवैध संबंध हो गया था। इसी कारण हम लोगो ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे मार दिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1. धर्मेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र इकबाल बहादुर सिंह निवासी ददौर सलेमपुर थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।
2. दिलीप उर्फ दीपू पुत्र जय बहादुर निवासी कलापुर थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01. घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस
02. घटना में प्रयुक्त 01 अदद सफेद अल्टो कार नं0 UP 72 M 3711
03. घटना में प्रयुक्त 01 अदद रस्सी

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 214/20 धारा 302, 201 भादंवि थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़
02. मु0अ0सं0 215/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ बनाम धर्मेन्द्र बहादुर सिंह

पुलिस टीम- प्रभारी निरीक्षक विपिन कुमार सिंह मय हमराह थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

जुआ खेलते 04 अभियुक्त गिरफ्तार व कुल 6300 रू0 व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद (थाना हथिगवां)

कल दिनांक 29.10.2020 को जनपद के थाना हथिगवां से उ0नि0 श्री सूर्य प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र हथिगवां के पावर हाउस के पीछे महुआ की बाग से हार जीत की बाजी लगाकर ताश के पत्ते से जुआ खेलते हुये 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 6300 रू0 नकद व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद किये गये। इसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 209/20 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. संजीव पुत्र भुल्लू निवासी पूरेजीत थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़
02. पारस पुत्र रामलाल निवासी कटरा निवासी हथिगवां जनपद प्रतापगढ़
03. जुल्फिकार राजा पुत्र हसमत अली निवासी बाबा का पुरवा जनपद प्रतापगढ़

04. राम करन पुत्र रामप्यारे निवासी कटरा निवासी हथिगवां जनपद प्रतापगढ़

बरामदगी-

- 01 6300/- रू० नकदा
- 02 52 अदद ताश के पत्ते

पुलिस टीम- उ०नि० श्री सूर्य प्रताप सिंह मय हमराह थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़

दिनांक 28.10.20 को थानाक्षेत्र कोतवाली नगर के गायघाट के पास ट्रक ड्राइवर से 3200 रुपये की लूट करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 28.10.20 को रात्रि के समय वादी सतीश कुमार पुत्र जीतू निवासी ग्राम बकशपुरवा थाना सिवली जनपद कानपुर देहात जोकि एक ट्रक ड्राइवर है के द्वारा थाना कोतवाली नगर पर तहरीर दी गई कि आज दिनांक 28.10.2020 को समय 19.45 बजे मैं अपने ट्रक नं० UP 78 BN 6494 से सरिया लादकर कानपुर से आ रहा था कि प्रतापगढ़ के गायघाट चौराहे के आगे मेडिकल कालेज के पास ट्रक खड़ा करके नीचे उतर कर ट्रक की हवा आदि चेक कर रहा था तभी दो मो०सा० पर सवार 04 व्यक्ति आए और मेरा पर्स जिसमें 3200 रुपये थे को छीन लिए। घटना के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु०अ०सं० 1005/20 धारा 394 भादंवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

थाना कोतवाली नगर के उ०नि० एहसानुल-हक मय हमराह द्वारा उक्त मुकदमें से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु किये जा रहे प्रयास के क्रम में आज दिनांक 30.10.2020 को मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र कोतवाली नगर के गायघाट में नवनिर्मित मेडिकल कालेज के पीछे से घटना से संबंधित 02 अभियुक्तों इरफान व असलम को गिरफ्तार किया गया तथा दो अभियुक्त करमवीर सिंह व ठेकेदार मौके से भाग निकले। गिरफ्तार अभियुक्त इरफान के कब्जे से उक्त लूट के बचे 400 रुपये व असलम के कब्जे से उक्त लूट से संबंधित 300 रुपये बरामद किया गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

01. इरफान पुत्र मोहर अली निवासी पूरे केशवराय थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़
02. असलम पुत्र रहम अली निवासी पूरे केशवराय थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

फरार अभियुक्तों का विवरण

01. करमवीर सिंह उर्फ लव सिंह पुत्र शिवाजीत सिंह निवासी पूरे केशवराय थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़
02. ठेकेदार निवासी ग्राम मऊ आईमा जनपद प्रयागराज

पंजीकृत अभियोगों का विवरण

01. मु०अ०सं० 1005/20 धारा 394 भादंवि थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़
02. मु०अ०सं० 1008/20 धारा 411/413/414 भादंवि थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

बरामदगी-

01. 700/- रुपये नगद, (उक्त लूट से संबंधित)
02. 01 अदद चोरी की मो०सा० स्प्लेण्डर प्लस नं० UP 70 AE 6482

पुलिस टीम- उ०नि० श्री एहसानुल-हक मय हमराह थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़